

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 24.02.2023

फोटो वायरल करने/आईटी एक्ट एवं पाक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 04 अभियुक्त गिरफ्तार, 02 मोबाइल फोन व 250 रुपये नकद बरामद (थाना लालगंज)

दिनांक 22.02.2023 को एक युवती द्वारा मोटर साइकिल से पेट्रोल निकालकर अपने ऊपर डालकर स्वयं को जलाने के प्रकरण में परिजन द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लालगंज में मु0अ0सं0 41/23 धारा 147,323,306,511,354ग,509 भादवि व 66ई,67ए आईटी एक्ट, 13/14 पाक्सो एक्ट का अभियोग बनाम 06 नामजद अभियुक्तों के पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग के विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु संबंधित को कड़े निर्देश दिये गये थे, इसी क्रम में आज दिनांक 24.02.2023 को मुकदमा उपरोक्त के विवेचक प्र0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना सांगीपुर एवं उ0नि0 श्री निकेत भारद्वाज, उ0नि0श्री अनिश कुमार, उ0नि0 श्री राजेन्द्र कुमार यादव मय हमराह थाना लालगंज द्वारा 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण –

- 1- बाबू उर्फ हारून पुत्र खुशियाल,
- 2- लल्लू पुत्र खुशियाल,
- 3- मो0 शाबिर पुत्र बाबू उर्फ हारून,
- 4- मो0 कादिर पुत्र बाबू उर्फ हारून निवासीगण डगरा पीथनपुर, थाना संग्रामगढ़, प्रतापगढ़।

बरामदगी – 02 मोबाइल फोन(विवो, ओप्पो) व 250/- रुपये (जामातलाशी से)

पुलिस टीम - प्र0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना सांगीपुर एवं उ0नि0 श्री निकेत भारद्वाज, उ0नि0 श्री अनिश कुमार, उ0नि0 श्री राजेन्द्र कुमार यादव मय हमराह थाना लालगंज।

02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार (थाना महेशगंज)

जनपद के थाना महेशगंज के उ0नि0 श्री दीपक कुमार यादव, उ0नि0 श्री हेमन्त कुमार वर्मा मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मु0अ0सं0 471/18 धारा 498A,323,504,506 भादवि व 3/4 DP ACT, थाना जेठवारा प्रतापगढ़ से संबंधित वांछित अभियुक्त अब्दुल खालिफ पुत्र अब्दुल गफर नि- महेशगंज मलेकिया थाना महेशगंज प्रतापगढ़ एवं मु0अ0सं0 179/96 धारा 323,504,506 भादवि थाना जेठवारा प्रतापगढ़ से संबंधित वांछित अभियुक्त छेदीलाल पुत्र झगरू सरोज नि0 मिसवन मिया का पुरवा थाना महेशगंज प्रतापगढ़ उपरोक्त अभियुक्तगण को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।